



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062025-263961  
CG-DL-E-19062025-263961

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2025/ज्येष्ठ 28, 1947

No. 349]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2025/JYAISTHA 28, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून 2025

सा.का.नि. 392(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैयक्तिक सहायक, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैयक्तिक सहायक के पद पर प्रोन्नति करने के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैयक्तिक सहायक, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा. - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव अभिप्रेत है;

(ख) "उपलब्ध रिक्ति" से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैयक्तिक सहायक के पद पर ऐसी रिक्ति अभिप्रेत है जो परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जानी अपेक्षित है;

(ग) "निर्णायक तारीख" से रिक्ति वर्ष की जनवरी मास की पहली तारीख अभिप्रेत है, जिसमें ऐसी परीक्षा आयोजित की जाती है;

(घ) "परीक्षा" से इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में वैयक्तिक सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;

(ङ) "भर्ती वर्ष" से एक जनवरी से आरम्भ होने वाली और उसी वर्ष के दिसम्बर मास की 31 तारीख को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" के वही अर्थ होंगे जो उनका संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में हैं

**3. पात्रता की शर्तें.** - (1) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपये) में स्तर-4 में आशुलिपिक, जिन्होंने निर्णायक तारीख पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। पात्र अधिकारियों को समय-समय पर तय किए गए सुसंगत फील्ड या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना चाहिए।

(2) ऐसे व्यक्तियों पर जिन्होंने पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद धारण किए हुए हैं, के लिए पात्रता वही रहेगी।

**4. परीक्षा का आयोजन.** - (1) नियुक्ति प्राधिकारी परीक्षा की तारीख और स्थान तथा परीक्षा की घोषणा के समय उपलब्ध और अनुमानित रिक्तियों की संख्या अधिसूचित करेगा।

(2) परीक्षा, रिक्तियों की अधिसूचना की तारीख से कम से कम तीस दिन की समाप्ति के पश्चात अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से आयोजित की जाएगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, यदि कोई हो, अधिसूचना में स्पष्ट रूप से दर्शाई जाएगी।

**5. परिणाम.** - (1) परीक्षा के भाग I, II और III में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, भर्ती वर्ष में होने वाली रिक्तियों और प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए, योग्यता क्रम में सफल अभ्यर्थियों के नामों वाली एक योग्यता सूची अधिसूचित की जाएगी।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए मूल्यांकन के मानक समय-समय पर जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार होंगे।

(3) उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों पर उस क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई योग्यता सूची में उनके नाम आए हों।

(4) यह योग्यता सूची तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि अधिसूचित रिक्तियां भर नहीं जातीं या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख से 18 माह की अवधि तक या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अगली योग्यता सूची अनुमोदित होने तक, जो भी पहले हो।

**6. नियुक्ति.** - किसी अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची में सम्मिलित किए जाने से ही उसे कोई नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासन संबंधी कोई मामला लंबित नहीं है और योग्यता सूची में उसके नाम, पदों के आरक्षण या ऐसी अन्य अपेक्षाओं को विचार में लेने के पश्चात् नियुक्त किया जाएगा जो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर कानूनी आदेशों या नियमों द्वारा अधिकथित की जाएं।

**7. पद त्याग, आदि पर योग्यता सूची से नाम का हटाया जाना.** - (1) किसी ऐसे अभ्यर्थी की दशा में, जो परीक्षा में बैठने के पश्चात् अपनी सेवा से पद त्याग करता है या जिसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है या जिसे किसी काडर बाह्य पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया जाता है या जिसका नियम 3 में वर्णित पदों में से किसी पर धारणाधिकार नहीं है उसका नाम योग्यता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा या यदि उक्त योग्यता सूची में सम्मिलित है तो उससे उसका नाम काट दिया जाएगा।

(2) जहां कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम उक्त वरीयता सूची में सम्मिलित है, नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति से केन्द्रीय सरकार के अन्य काडर बाह्य पद या किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित किया जाता है और नियम 3 में वर्णित किसी पद पर उसका धारणाधिकार बना रहता है, वहां उसे वैयक्तिक सहायक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह योग्यता सूची के प्रवृत्त रहने की अवधि के दौरान अपने मूल पद पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अपना काम पुनः आरम्भ नहीं करता है:

परंतु यह कि रूपविधान प्रोन्नति के लिए उसके दावे पर विचार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जारी किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों और नियमों के अनुसार किया जा सकेगा।

**8. प्रतिरूपण या अन्य अवचार के लिए शास्ति.** - कोई ऐसा अभ्यर्थी, जो निम्नलिखित का दोषी है या उसके लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दोषी घोषित किया गया है -

(i) अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं साधनों द्वारा समर्थन प्राप्त करना; या

(ii) प्रतिरूपण; या

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण कराना; या

(iv) गढ़े हुए दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना, जिसमें गड़बड़ी की गई हो; या

(v) ऐसे कथन करना, जो सही नहीं हैं या मिथ्या हैं या तात्त्विक जानकारी को छुपाते हैं; या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के सम्बन्ध में कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना; या

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करना; या

(viii) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना; या

(ix) खंड (i) से खंड (viii) तक में विनिर्दिष्ट मंत्रालयों के सभी या कोई अन्य कार्य, यथास्थिति, करने का प्रयत्न करना या करने को दुष्प्रेरित करना;

दांडिक कार्यवाही के अतिरिक्त, निम्नलिखित के दायित्वाधीन हो सकेगा -

(क) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा से निरर्हित किया जाना; या

(ख) समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई।

परन्तु यह कि इस नियम के अधीन निम्नलिखित के सिवाय कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी-

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा प्रतिवेदन देने के लिए अवसर प्रदान किया जाए जो वह उस प्रयोजन से देना चाहता है; और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवेदन को उसके द्वारा जारी की गई अवधि के भीतर विचार किया जाएगा।

**9. शिथिल करने की शक्ति.** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**10. व्यावृत्ति.** - इन नियमों की कोई बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए, इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

### अनुसूची (नियम 4 देखिए)

परीक्षा निम्नलिखित तीन भागों में आयोजित की जाएगी, अर्थात्:-

#### भाग-1

- लिखित परीक्षा अधिकतम 200 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा का विषय, प्रत्येक पेपर के लिए आवंटित अधिकतम अंक और दी जाने वाली समय सीमा निम्नानुसार होगी, अर्थात्:-

प्रश्न पत्र की सं.	विषय	प्रश्न पत्र के प्रकार	अधिकतम अंक	समय
I	सामान्य जागरूकता (100 प्रश्न)	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटे
II	अंग्रेजी भाषा का बोधन और लेखन क्षमता। (100 प्रश्न)	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटे

#### 2. परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम :

क. प्रश्न पत्र-I

**सामान्य जागरूकता.**- इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों की आस-पास के वातावरण के प्रति सामान्य जागरूकता और समाज में इनके प्रयोग के ज्ञान को जांच करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समसामयिक घटनाओं और दिनप्रतिदिन के अवलोकनों और अनुभवों का ज्ञान का परीक्षण करने के लिए भी प्रश्न तैयार किए जाएंगे। इस परीक्षा में भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न मुख्य रूप से इनके इतिहास, संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, सामान्य राजनीतिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी प्रश्न शामिल होंगे।

**ख. प्रश्न पत्र-II**

**अंग्रेजी भाषा का बोधन और लेखन क्षमता.-** अंग्रेजी भाषा की शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य अवसंरचना, समानार्थी, विलोम, वाक्य पूर्ण करना, वाक्यांश और शब्दों का मुहावरेदार प्रयोग इत्यादि संबंधी अभ्यर्थी की समझ और ज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे। गद्य अवतरण पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे।

**3. गलत उत्तरों के लिए शास्ति (वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न पत्रों में).** - वैकल्पिक प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा किए गए गलत उत्तर के लिए शास्ति (प्रतिकूल अंकन) होगा, जो निम्नानुसार है:

- (i) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा एक गलत उत्तर दिया गया है, उस प्रश्न को सौंपा गया अंकों का एक चौथाई (0.25) शास्ति के रूप में काटा जाएगा।
- (ii) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो उसे गलत उत्तर के रूप में माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से कोई एक सही हो और उस प्रश्न के लिए ऊपर जैसी ही शास्ति होगी।
- (iii) यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया गया है अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है तो उस प्रश्न के लिए कोई शास्ति नहीं होगी।

**4. अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी (देवनागरी) में पेपर का उत्तर देने का विकल्प दिया जाता है।** सभी दोनों प्रश्न पत्र अथवा परीक्षा पुस्तिकाएं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाएंगी।

**टिप्पण 1:** अभ्यर्थियों को हिंदी (देवनागरी) में उत्तर के विकल्प के व्यवहार्य की बांछा आवेदन पत्र में ऐसा करने के अपने आशय को दर्शित करना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि वे पूर्वोक्त पत्र अंग्रेजी में देंगे। एक बार उपयोग किए जाने वाले विकल्प को अंतिम माना जाएगा और बाद में बदलाव के लिए कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा चुने गए किसी अन्य भाषा में परीक्षा के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।

**टिप्पण 2:** हिंदी (देवनागरी) में प्रश्न पत्र का उत्तर देने के विकल्प का उपयोग करने वाले अभ्यर्थी हिंदी संस्करण के अतिरिक्त यदि कोई हो तकनीकी शर्तों के विवरण के कोष्ठक के भीतर अंग्रेजी संस्करण दे सकते हैं।

**टिप्पण 3:** यदि परीक्षा में उत्तर देने के लिए आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा इंगित माध्यम से अन्यथा माध्यम का चयन किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

**5. भाग 1 में दो विषयों में से प्रत्येक में न्यूनतम अर्हता अंक पैंतीस प्रतिशत होना चाहिए और कुल अंक पैंतालीस प्रतिशत होना चाहिए।**

**6. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक आबंटित नहीं किए जाएंगे।**

**7. जहां तक किसी अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकार्यता और उसकी पात्रता का सम्बन्ध है वहां पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय, परीक्षा के लिए अन्यथा प्रवेश करने के लिए अंतिम होगा।**

**8. परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी दो प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों की उपस्थिति आवश्यक है।**

**भाग-2**

**हिन्दी या अंग्रेजी में आशुलिपि कौशल परीक्षा (उन व्यक्तियों के लिए जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं) - 200 अंक।**

### आशुलिपि परीक्षा स्कीम निम्नानुसार होंगी, अर्थात्:-

- (1) अंग्रेजी की आशुलिपि परीक्षा में 10 मिनट की अवधि के लिए प्रति मिनट 100 शब्दों की श्रुतलेख परीक्षा होगी जिसे अभ्यर्थियों द्वारा कम्प्यूटर पर 40 मिनट में टाइप किया जाना अपेक्षित होगा।
- (2) हिन्दी की आशुलिपि परीक्षा में 10 मिनट की अवधि के लिए प्रति मिनट 100 शब्दों की श्रुतलेख परीक्षा होगी जिसे अभ्यर्थियों द्वारा कम्प्यूटर पर 55 मिनट में टाइप किया जाना अपेक्षित होगा।

### भाग-3

#### 1. वार्षिक संपादन अंकन रिपोर्टों का मूल्यांकन:-

- (क) यह भाग अधिकतम 100 अंको का होगा।
- (ख) अभ्यर्थियों के वार्षिक संपादन अंकन रिपोर्टों की प्रोन्नति के लिए संगणित की गई सेवा अवधि हेतु संवीक्षा की जाएगी और तदनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अंक आबंटित किए जाएंगे।
- (ग) कार्य अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष की वार्षिक संपादन अंकन रिपोर्टों में न्यूनतम अर्हता अंक वैयक्तिक सहायक के पद की प्रोन्नति के लिए विहित किए गए मानक से कम नहीं होगा।

#### 2. पैरा 1 के उप पैरा (ख) में संदर्भित विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

- (1) अपर सचिव (कार्मिक) या संयुक्त सचिव (कार्मिक), - अध्यक्ष;  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- (2) उप सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - सदस्य;
- (3) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अन्यथा - सदस्य।  
भारत सरकार के मंत्रालय या विभाग से उप सचिव या समतुल्य अधिकारी

[फा.सं. 01(10)/2024-पी.III]

अमितेश कुमार सिन्हा, अपर सचिव

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th June ,2025

**G.S.R. 392(E).** –In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Electronics and Information Technology, Personal Assistant, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the Limited Departmental Competitive Examination for promotion to the post of Personal Assistant in the Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Personal Assistant, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition.** – In these rules unless the context otherwise requires, -

(a) “appointing authority” means the Secretary to the Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology;

(b) “available vacancy” means a vacancy in the post of Personal Assistant’s grade in the Ministry of Electronics and Information Technology which is required to be filled up on the basis of the results of the examination;

(c) “crucial date” means the first day of January of the year of the vacancies for which such examination is held;

(d) “examination” means the Limited Departmental Competitive Examination for promotion to the post of Personal Assistant held in the manner specified in the Schedule;

(e) “recruitment year” means the period commencing from the 1<sup>st</sup> day of January and ending on the 31<sup>st</sup> day of December of the same year;

(f) “Schedule” means the Schedule annexed to these rules;

(g) “Scheduled Castes” and “Scheduled Tribes” shall have the same meanings respectively as assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution.

3. **Conditions of eligibility.** – (1) Stenographer in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) in the Ministry of Electronics and Information Technology with five years regular service in the grade on the crucial date shall be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination. The eligible officers should have successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time.

(2) The eligibility shall continue to be the same for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.

4. **Holding of the examination.** – (1) The appointing authority shall notify the dates and place of the examination and number of available and anticipated vacancies assessed at the time of announcing the examination.
- (2) The examination shall be conducted after the expiry of at least thirty days from the date of notifying the vacancies in the manner specified in the Schedule.
- (3) The number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person, if any, shall be clearly indicated in the notification.
5. **Results.** – (1) On the basis of the aggregate marks secured by the candidate in Part I, II and III of the examination, a merit list containing the names of the successful candidates in order of merit shall be notified, keeping in view the number of vacancies and anticipated vacancies, if any, falling in the recruitment year.
- (2) The standards of evaluation for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be as per the Government instructions from time to time.
- (3) The candidates for appointment against the available vacancies shall be considered in the order in which their names appear in the merit list prepared under sub-rule (1).
- (4) The merit list shall remain in operation till the notified vacancies are filled up or upto a period of 18 months from the date of its approval by the appointing authority or till next merit list is approved by the appointing authority, whichever is earlier.
6. **Appointment.** – The inclusion of the name of any candidate in the merit list shall not confer a right to appointment and he shall be appointed by the appointing authority only after satisfying himself that no vigilance or disciplinary case is either pending or contemplated against the candidate and after taking into account his placement in the merit list, the reservation of posts or such other requirements as may be laid down by statutory orders or rules issued by the Central Government, from time to time, in this regard.
7. **Removal of name from merit list on resignation, etc.** – (1) In case a candidate after appearing at the examination resigns from the service or whose services are terminated or who is appointed to an ex-cadre post or to any other service and does not have a lien on any post mentioned in rule 3, his name shall not be included in the merit list, or if included in the said merit list shall be struck off therefrom.
- (2) Where a candidate, whose name is included in the said merit list, is appointed to an ex-cadre post or is transferred to another Department of the Central Government with the permission of the appointing authority and continue to have a lien on any post mentioned in rule 3, shall not be appointed as Personal Assistant till he resumes the duties in the Ministry of Electronics and Information Technology on his initial post during the period the merit list remains in force:
- Provided that his claim for proforma promotion may be considered by the appointing authority in accordance with the orders and rules of the Central Government, issued in this behalf from time to time.
8. **Penalty for impersonation or other misconduct.** – A candidate, who is or has been declared by the appointing authority to be guilty of –



- (i) obtaining support for his candidature by any means; or
- (ii) impersonation; or
- (iii) procuring impersonation by any person; or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information; or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or
- (vii) using unfair means in the examinations hall; or
- (viii) misbehaving in the examination hall; or
- (ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the ministry of all or any of the acts specified in clauses (i) to (viii);

may, in addition to the criminal proceedings, liable –

- (a) to be disqualified by the appointing authority from the examination; or
- (b) to disciplinary action, under the appropriate rules:

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after-

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him, into consideration.

9. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### **SCHEDULE**

**(See rule 4)**

The examination shall be conducted in the following three parts, namely: –

#### **Part I**

1. Written examination shall carry a maximum of 200 marks. The subject of the written examination, the maximum marks allotted to each paper and the time limit allowed shall be as follows, namely: –

<b>Paper No.</b>	<b>Subject</b>	<b>Type of Paper</b>	<b>Maximum Marks</b>	<b>Time</b>
I.	General Awareness (100 Questions)	Objective	100	2 hours
II.	Comprehension and writing ability of English Language (100 Questions)	Objective	100	2 hours

2. Syllabus for examination:

A. Paper-I

**General Awareness.** – Question will be aimed at testing the candidates General Awareness of the environment around him and its application to society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and such matters of every day observations and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries especially pertaining to History, Culture, Geography, Economics, Science, General Politics and Scientific research.

B. Paper-II

**Comprehension and writing ability of English Language.** – Questions will be designed to test the candidate's understanding and knowledge of english language, vocabulary, spelling, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, sentence completion, phrases and idiomatic use of words etc. There will be question on comprehension of a passage also.

3. **Penalty for wrong answers (in Objective Type Papers).** – There will be penalty (Negative Marking) for wrong answers marked by a candidate in the objective question papers as under-

- (i) There will be four alternatives for the answer to every question and for each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one-fourth (0.25) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.
- (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above for that question.
- (iii) If a question is left blank, i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

4. Candidates are allowed the option to answer in Hindi (Devanagari) or in English. All the two question papers or test booklets will be set both in Hindi and English.

**Note 1:** Candidates desirous of exercising the option to answer in Hindi (Devnagari) should indicate their intention to do so in the application form otherwise it would be assumed that they would answer the aforesaid paper in English. The option once exercised shall be treated as final and no request for change shall be entertained later on. No credit shall be given for examination taken in a language other than the one opted for by the candidate.

**Note 2:** Candidates exercising the option to answer the paper in Hindi (Devanagari) may, if they so desire, give English version within brackets of the description of the technical terms, if any, in addition to the Hindi version.

**Note 3:** If a medium other than the one indicated by the candidate in the application form is used to write the answer in the examination, the paper of such candidates will not be evaluated.

5. The minimum qualifying marks in each of the two subjects in Part I should be thirty-five per cent. and aggregate marks should be forty-five per cent.
6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.
7. The decision of the Central Government with regard to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

8. Appearance of candidates in all the two papers is a must for qualifying in the examination.

### **Part II**

#### **SHORTHAND SKILL TEST IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY IN THE WRITTEN EXAMINATION) – 200 MARKS.**

**Scheme of shorthand test will be as follows, namely: –**

- (1) The Stenography or shorthand test in English will comprise dictation test at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 40 minutes on the Computer.
- (2) The Stenography or shorthand test in Hindi will comprise dictation test at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 55 minutes on the Computer.

### **Part III**

1. Assessment of Annual Performance Appraisal Reports: -

- (a) This part shall carry a maximum of 100 marks.
- (b) The Annual Performance Appraisal Reports of the candidates shall be scrutinised for the service period reckoned for promotion and marks will be accordingly allotted by the Departmental Promotion Committee.
- (c) The minimum qualifying marks in the Annual Performance Appraisal Reports of each year during the residency period will not be lower than the benchmark prescribed for promotion to the post of Personal Assistant.

2. The Departmental Promotion Committee referred to in sub-paragraph (b) of paragraph 1 shall consist of the following persons, namely: -

- |     |   |                |
|-----|---|----------------|
| (1) | Additional Secretary (Personnel) or Joint Secretary (Personnel),<br>Ministry of Electronics and Information Technology  | - Chairperson; |
| (2) | Deputy Secretary, Ministry of Electronics and Information<br>Technology   | - Member;      |
| (3) | Deputy Secretary or equivalent to the Government of India from a<br>Ministry or Department other than the Ministry of Electronics and<br>Information Technology | - Member.      |

[F.No. 01(10)/2024-P.III]

AMITESH KUMAR SINHA, Addl. Secy.